

शुभक,

बी०एम० मिश्र,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संज्ञा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2018

विषय:- मै० राणा फ़ोजनफूड्स को ग्राम सुन्धारी, रूड़की को मौजा सुन्धारी परगना मंगलौर, तहसील, रूड़की, जनपद, हरिद्वार में औद्योगिक प्रयोजन हेतु कुल रकवा-0.7463 है० भूमि कय के सम्बन्ध में।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/जि०भू०व्य०सहा०/2017, दिनांक 01-01-2018 का प्रतिलिपि सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै० राणा फ़ोजनफूड्स को ग्राम सुन्धारी, रूड़की को मौजा सुन्धारी परगना, मंगलौर, तहसील, रूड़की, जनपद, हरिद्वार में खसरा नम्बर-146/2 रकवा 0.6735 है०, खसरा नम्बर-148/2म० रकवा 0.0048 है०, 148/2 रकवा 0.0380 है०, 319/6म रकवा 0.0630 है० कुल 4 किते रकबई 0.7463 है० भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि कय की अनुमति का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै० राणा फ़ोजनफूड्स को ग्राम सुन्धारी, रूड़की को मौजा सुन्धारी परगना, मंगलौर, तहसील, रूड़की, जनपद, हरिद्वार में खसरा नम्बर-146/2 रकवा 0.6785 है०, खसरा नम्बर-148/2म० रकवा 0.0048 है०, 148/2 रकवा 0.0380 है०, 319/6म रकवा 0.0630 है० कुल 4 किते रकबई 0.7463 है० भूमि औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि कय की अनुमति "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950)(अनुकूलन एवं उपरान्तरण आदेश-2001)(संशोधन) अधिनियम-2017" (अधिनियम संख्या-09/2018) एवं तदक्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-786/XVIII(II)/2018-02(05)/2016, दिनांक 16 मई, 2018 में दिये गये निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव।

संख्या-278/XVIII(II)/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव/सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 5- निदेशक, उद्योग, इण्डस्ट्रियल इस्टेट, पटेलनगर, देहरादून।
- 6- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा, 2-न्यूकैन्ट रोड, सिडकुल, देहरादून।
- 7- मै० राणा फ़ोजनफ़ूट्स, ग्राम सुन्धारी, जौरासी रुड़की, जनपद, हरिद्वार।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10- गार्ड फ़ाईल।

भवदीय,

(बी०एम० मिश्र)
अपर सचिव।